

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए कैंनेडा में शहर के पहले बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम की घोषणा की

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (16 अप्रैल, 2020) – कल, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम (Backyard Garden Program) की शुरुआत की। यह प्रोग्राम हमारे शहर में भोजन संबंधी सुरक्षा में सहयोग में मदद के लिए नई ईको-फ्रेंडली पहलकदमी है। यह निवासियों को COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) एमरजेंसी के दौरान घर में क्रियाशील रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, कैंनेडा में पहली ऐसी म्युनिसिपल्टी है, जिसने COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, निवासियों को अपनी खुद की सब्जियां उगाने में सहयोग करने के लिए पूरे शहर में यह पहलकदमी शुरू की है।

नए ब्रैम्पटन बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम के चेयर, वार्ड्स 2 और 6 के सिटी काउंसलर डग विलैन्स हैं। यह प्रोग्राम सिटी के पार्क्स मेंटेनेंस एंड फोरेस्ट्री (Parks Maintenance and Forestry) डिवीजन की साझेदारी में किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर इसमें सामुदायिक साझेदारों को भी शामिल किया जाएगा।

शारीरिक दूरी जैसे उपायों को आवश्यक समझते हुए, यह प्रोग्राम निवासियों को अपने खुद के घरों में सब्जियां आदि उगाने और अपने घर में उगी सब्जियों को स्थानीय फूड बैंकों और सामुदायिक संगठनों को दान देने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि भोजन, जरूरतमंद लोगों को बराबर भागों में बांटा जाता है, फूड बैंकों और संगठनों से निवेदन फार्म भरवाया जाएगा।

यह पहलकदमी, भोजन संबंधी सुरक्षा पर केंद्रित, मेयर की सोशल स्पॉर्ट टास्क फोर्स (Social Support Task Force) का समर्थन करती है। यह सिटी की, हरे-भरे शहर (Green City) को कायम रखने की प्राथमिकता की भी पुष्टि करती है।

नया बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम, मौजूदा कम्युनिटी गार्डन्स (Community Gardens) प्रोग्राम का विस्तार है, जिसके द्वारा निवासी क्रियाशील रह सकते हैं और हरियाली कायम रख सकते हैं।

निवासी BramptonGreenCity@brampton.ca पर ईमेल करके निशुल्क सामान (मिट्टी व बीज) मंगवा सकते हैं। हम अपनी वेबसाइट www.brampton.ca/parks पर इस बारे में ट्यूटोरियल और सुझाव भी साझा करेंगे कि गार्डन की देखरेख कैसे की जाए।

अर्थ डे (Earth Day) की 50^{वीं} वर्षगांठ आने वाली (बुधवार, 22 अप्रैल) है, इसलिए यह निवासियों के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि वे शहरी खेती में योगदान करें, समुदाय में योगदान दें और ब्रैम्पटन को अधिक स्वस्थ, लचीला और वातावरण संबंधी स्थिर शहर बनने में मदद करें। घर में ही अर्थ डे का जश्न मनाने के बारे में यहां कुछ [सुझाव \(tips\)](#) दिए गए हैं।

दान की जरूरत

यदि आप इन चीजों का कारोबार करते हैं और सिटी को मिट्टी, सब्जियों के पौधे और बीज दान के रूप में दे सकते हैं, तो कृपया BramptonGreenCity@brampton.ca पर ईमेल करें।

इस बारे में ताज़ा जानकारी के लिए कि COVID-19 की स्थिति के दौरान सिटी ऑफ ब्रैम्पटन क्या कर रही है, www.brampton.ca/COVID19 पर जाएं।

हवाले

“इस महामारी के दौरान, हमारे निवासियों और सामुदायिक समूहों को सहयोग करना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हमारी सोशल स्पोर्ट टास्क फोर्स, ब्रैम्पटन के कमज़ोर समुदायों को भोजन संबंधी आवश्यक सहयोग प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यह निवासियों को इस हित में जुड़ने और अपने बैकयार्ड्स में ताज़ी सब्जियां उगाने में सक्षम बना रही है। ब्रैम्पटन के निवासियों के सहयोग से, हमारा लक्ष्य है कि हम इस प्रोग्राम के द्वारा 1,000 नए बैकयार्ड्स गार्डन्स की शुरुआत करें। साथ मिलकर, हम क्रियाशील रहते हुए और समुदाय के गौरव को बढ़ाते हुए, हमारे फूड बैंकों पर दबाव को कम करने में मदद कर सकते हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“हमारा सामुदायिक गार्डन्स प्रोग्राम बेहद सफल रहा है। हालांकि हम शारीरिक दूरी जैसे उपायों को आवश्यक समझते हुए, उसी तरीके से सामुदायिक गार्डन्स का काम नहीं कर सकते, इसीलिए हम निवासियों के लिए यह प्रोग्राम लेकर आए हैं। यह प्रोग्राम सभी निवासियों को बागबानी करने, अलग रहते हुए आउटडोर का आनंद लेने और हमारे समुदाय के बुजुर्गों व जरूरतमंदों को योगदान देने के लिए प्रोत्साहित करता है।”

- डग विलैन्स (Doug Whillans), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 2 और 6, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, फ्लावर सिटी के नाम से प्रसिद्ध है। इस चुनौतीपूर्ण समय के दौरान, सिटी का स्टाफ, निवासियों को घर पर रहते हुए, क्रियाशील रहने में सहयोग करने के लिए, बैकयार्ड गार्डन प्रोग्राम लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रैम्पटन को हरे-भरे शहर के तौर पर विकसित करना और ब्रैम्पटन में भोजन संबंधी सुरक्षा में योगदान देना, टर्म ऑफ काउंसिल की मुख्य प्राथमिकता है।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

केनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे



Media Release

बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca